

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)



कार्यवृत्त

विद्या-परिषद् की पाँचवीं बैठक

16 जनवरी, 2006

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, कमेटी रूम नं. 1, नयी दिल्ली

सुबह 11:00 बजे



# महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

## विद्या-परिषद् की पाँचवीं बैठक का कार्यवृत्त

### अनुक्रमणिका

मद सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	विद्या-परिषद् की चौथी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	001-006
2.	विद्या-परिषद् की चौथी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।	007-034
3.	भाषा-केन्द्र, लखनऊ में चल रहे पाठ्यक्रमों एम.ए. हिन्दी, भाषा, साहित्य और अनुवाद तथा एम.फिल. के पाठ्यक्रमों की कार्योत्तर स्वीकृति।	035-057
4.	भाषा-केन्द्र तथा परिसर में चल रहे पाठ्यक्रमों के अंकपत्रों, उपाधियों तथा प्रमाण-पत्र आदि के प्रारूपों पर पुर्नविचार।	058-066
5.	विश्वविद्यालय के वर्तमान चार विद्यापीठों के अतिरिक्त दो अतिरिक्त विद्यापीठ शुरू करने पर विचार।	067
6.	M.B.A. पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव	067
7.	विश्वविद्यालय में B.Tech. (सूचना प्रौद्योगिकी) शुरू करने पर विचार	068
8.	विश्वविद्यालय में नियमित एवं दूर शिक्षा के अंतर्गत B.Ed., D.Ed. शुरू करने पर विचार।	068
9.	विश्वविद्यालय के 4 विद्यापीठों के अतिरिक्त पाँच केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव।	069-106
10.	दूर शिक्षा के अंतर्गत पाँच क्षेत्रीय केन्द्रों के अलावा प्रत्येक प्रांत में एक-एक अध्ययन केन्द्र बनाने का प्रस्ताव तथा दूर शिक्षा के अंतर्गत कुछ नए पाठ्यक्रम चलाए जाने की स्वीकृति	107-115
11.	वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रस्तावित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सेमीनार के आयोजन का अनुमोदन।	116
12.	एम.ए. सांस्कृतिक पर्यटन-पाठ्यक्रम (नियमित पाठ्यक्रम) वर्ष 2007 से आरंभ करने का प्रस्ताव।	116
13.	पी-एच.डी. के लिए बाहरी निर्देशकों (विश्वविद्यालय से बाहर के विशेषज्ञों को बतौर सहनिर्देशक रखे जाने पर विचार।	116
14.	विश्व हिन्दी साहित्य का इतिहास लेखन की परियोजना।	117
15.	M.Tech. भाषा प्रौद्योगिकी के विस्तृत पाठ्यक्रम का अनुमोदन।	117
16.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।	



# महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

## विद्या-परिषद् की पाँचवीं बैठक

### कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की पाँचवीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को सुबह 11:00 बजे इण्डिया इण्टरनेशनल सेण्टर, नयी दिल्ली के कमेटी रूम संख्या-1 में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1)	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष
2)	श्रीमती माजिदा असद	:	सदस्य
3)	श्रीमती मृदुला गर्ग	:	सदस्य
4)	श्रीमती इंदिरा गोस्वामी	:	सदस्य
5)	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
6)	डा. रामदयाल मुण्डा	:	सदस्य
7)	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
8)	श्री मधु मंगेश कर्णिक	:	सदस्य
9)	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
10)	प्रो. इंद्रनाथ चौधुरी	:	सदस्य
11)	प्रो. उदय नारायण सिंह	:	सदस्य
12)	प्रो. प्रभाकर श्रोत्रिय	:	सदस्य
13)	प्रो. राम गोपाल गुप्ता	:	सदस्य
14)	प्रो. टी. आर. भट्ट	:	सदस्य
15)	डा. राम कृपाल तिवारी	:	पदेन सचिव

अन्य सदस्य — प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी, प्रो. राम गोपाल बजाज तथा श्री एस. आर. फारुकी अन्यत्र पूर्व प्रतिश्रुत होने के कारण उपस्थित न हो सके।

कुलपति ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की समाचार-पत्रिका 'विश्व हिन्दी समाचार' का लोकार्पण 16.01.2006 की शाम को किया जा रहा है तथा सभी सदस्यों से उपस्थित रहने का अनुरोध करते हुए एक-एक प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई। सभी सदस्यों ने पत्रिका का अवलोकन कर कुलपति को इसके लिए बधाई तथा शुभकामनाएँ दी।